

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 318

मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

देश में ग्राम पर्यटन

318 श्री राकेश सिन्हा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने पर्यटन को भारतीय ग्रामों, जो भारत की वास्तविक सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं, तक विस्तारित करने की किसी योजना पर विचार किया है;
- (ख) क्या मंत्रालय ने "ग्राम पर्यटन" हेतु किसी योजना पर विचार किया है;
- (ग) यदि हां, तो उन ग्रामों की संख्या क्या है, जिन्हें "ग्राम पर्यटन" के लिए शामिल किया गया है और उनकी अवस्थितियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय भारत में "ग्राम पर्यटन" के विचार पर चर्चा करेगा और उसे बढ़ावा देगा?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): जी हां। पर्यटन मंत्रालय ने देश में अन्तिम छोर तक कनेक्टिविटी सहित पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए थीम आधारित पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना आरंभ की है। देश में ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को पहचानते हुए मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन को इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु शामिल 15 थीमैटिक परिपथों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया है।

स्वदेश दर्शन योजना के उद्देश्यों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार का सृजन और समुदाय आधारित विकास तथा गरीबों के अनुकूल पर्यटन दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है।

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर इस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिपथ के विकास के लिए 125.02 करोड़ रुपए की कुल राशि से निम्नलिखित दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जो कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं :-

- (i) बिहार राज्य में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 44.65 करोड़ रुपए की राशि से “भित्तहारवा-चंद्राहिया- तुरकौलिया” के विकास की परियोजना।
- (ii) केरल राज्य में, वित्तीय वर्ष 2018- 19 में 80.37 करोड़ रुपए की राशि से “मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन” के विकास की परियोजना।

मंत्रालय ने ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यटन क्षेत्र में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्कृष्ट ग्रामीण/ कृषि/ बागान पर्यटन परियोजना’ की श्रेणी में एक राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार की स्थापना भी की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हमें यह सूचित किया है कि उनका श्यामाप्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (एसपीएमआरएम) एक ऐसे ग्राम समूह के विकास के विजन पर आधारित है जो “मूलभूत रूप से शहरी समझी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समानता तथा सर्वसमावेशिता पर फोकस करते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को सुरक्षित तथा संरक्षित करता है और इस प्रकार रबन ग्रामों के समूह का सृजन करता है।”

इस मिशन के अंतर्गत 28 राज्यों और 8 संघ राज्यक्षेत्रों में 300 ग्राम समूहों का विकास किया जा रहा है। रबन समूह विकास की थीम में पर्यटन भी शामिल है। पर्यटन संबंधी कार्यकलाप/ परियोजनाएं एसपीएमआरएम की 21 घटक श्रेणियों में शामिल हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हमें यह भी सूचित किया है कि 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में कुल 67 रबन समूह ने पर्यटन संबंधी कार्यकलाप भी प्रस्तावित किए हैं। ग्राम पंचायतों की सूची अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

देश में ग्राम पर्यटन के सम्बन्ध में दिनांक 15.09.2020 के राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 318 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (एसपीएमआरएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजनाओं को कवर करने वाली ग्राम पंचायतों की सूची

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | जिले का नाम | क्लस्टर का नाम | ग्राम पंचायत का नाम |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | विशाखापट्टनम | अरकू वैली | पैदलाबूडू |
| 2. | असम | कामरूप | हाजो | संख्या 1 हाजो, संख्या 2 हाजो |
| 3. | छत्तीसगढ़ | कोंडागांव | बड़ेकनेरा | कामेला |
| 4. | दादरा एवं नगर हवेली | दादरा एवं नगर हवेली | सायली | दापादा, गलौंडा, किलवानी, मसत, रखोली, समरवाणी, सायली |
| 5. | गुजरात | बनास कांठा | अंबाजी | अंबाजी |
| 6. | गुजरात | मेहसाणा | बेचाराजी | बेचार उर्फ बेचाराजी |
| 7. | गुजरात | पंचमहल | मोरवा | मोरा |
| 8. | गुजरात | अरवल्ली | शामलाजी | शामलाजी, वेनपुर |
| 9. | गुजरात | मोरबी | टीकर | अजीतगढ़, मियानी, नवा घनश्याम गढ़, टीकर |
| 10. | हरियाणा | झज्जर | बादली | बादली, बादसा, बूपानीया, दरियापुर, डेसालपुर, देवर खाना, गुभाना, खेरका गुज्जर, लुकसार |
| 11. | हरियाणा | करनाल | बल्ला | सलवान |
| 12. | हरियाणा | पंचकूला | गणेश पुर | भुवाणा, बुर्ज कोटियन, फतेहपुर, दीवान वाला, मल्ला, दखरोग, चिकन, जनौली, मल्ला |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | मंडी | औट | औत,(एस डीआर),जीरी नागवाई(एस डी आर) |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | घानाहटी | बैचेरी, चेली, गेनियोग(नेहरा), घनाहट्टी, नेरी, शकरा, तोतू(मजठाई) गेनियोग(नेहरा) |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | सोलन | हिनेर | चेल |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16. | हिमाचल प्रदेश | किन्नौर | मूरंग | चारंग, मोरंग, रिश्पा, थागी, |
| 17. | हिमाचल प्रदेश | किन्नौर | सांगला | बातसेरी, चांसू, चिटकुल, कामरु, रक्छाम, सांगला, थेमगारंग,(बोनी नाग सेरिंग) |
| 18. | जम्मू एवं कश्मीर | कुपवाड़ा | खूमरियाल | चिरकुट,खूमरियाल ए ,खूमरियाल बी खूमरियाल सी, शो सुमरियाल 19 |
| 19. | कर्नाटक | बल्लारी | होलालू | होलालू |
| 20. | केरल | मल्लपुरम | इडाप्पल | वाट्टमकुलम इडाप्पल, वाट्टमकुलम |
| 21. | केरल | अलपूझा | कांजीकुड़ी- मरारी कुलम नॉर्थ | कांजीकुड़ी- मरारी कुलम नॉर्थ |
| 22. | केरल | कन्नूर | पिनाराई- वेंगड | पीनारायी, वेंगड |
| 23. | केरल | त्रिशूर | पुन्नयूरकुल, एम वडक्केकड | पुन्नयूरकुल, वडक्केकड |
| 24 . | केरल | कोट्टायम | पुथुपल्ली- मन्नार कादू | पुथुपल्ली- मन्नारकादू |
| 25. | मध्य प्रदेश | छतरपुर | अक्षत | महोबा |
| 26. | मध्य प्रदेश | मांडला | रामनगर | दुदा का, रामनगर |
| 27. | मध्य प्रदेश | इंदौर | सिमरोल | सिमरोल |
| 28. | महाराष्ट्र | जलगांव | हरताला | चांगदेव हरताले कोठाली |
| 29. | महाराष्ट्र | जलगांव | पाटोडा | बहाल |
| 30. | महाराष्ट्र | जलगांव | यंगांव | हरंगखेडे, यंगांव |
| 31. | मणिपुर | थूबल | कंगाबोक | टेंथा |
| 32. | मणिपुर | इंफाल ईस्ट | केराओ माक्किंग | बामुन कंपू, जीपी |
| 33. | मणिपुर | कांगपोक्पी | साइकुल | थंगल सुरंग |
| 34. | मेघालय | उत्तर गारो हिल्स | चिसिम अपाल | बंगशी अपाल, चिमाचों, चिराप, चित्तूकदाराम, चित्तूकोना गारो, चित्तूकोना राभा, दायनादूबी, काशकोना, लोअर नोगोलपाड़ा, निशानग्राम |

| | | | | |
|-----|----------|--------------------------|-------------|---|
| | | | | बाबूपारा, पांगसुदम, रोंगे |
| 35. | मेघालय | दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स | मावलंगवीर | मावलंगवीर मावफरखुए मवरंगलंग नोंगलांग नोंगमवेलिन नोंगनाद सोहखिलम |
| 36. | मेघालय | वेस्ट जैंतिया हिल्स | सोखा | कुदेंगथीमाई, लामीन, सोहखा मॉडल |
| 37. | मिजोरम | आइजोल | ऐबाक | आइबाक, फाकवान, केलसीह, माउबुआंग, मेलरीया त, मुआलंगुथु, फूलपुई, ससीक, समसुई, ताछिप, थि याक |
| 38. | मिजोरम | चम्फाई | खाजवाल | अरो, च्वंगटलाई, छैटरदुई, हम्चेंग, कवलकुल, खूले न , नेहडाउन, नगीजावल, पुइलो, टुल्लपुई, ट्यूल्टे, तुइपु, वंकल |
| 39. | ओडिशा | सुंदरगढ | काउरमुंडा | कुरमुंडा, पदमपुर |
| 40. | ओडिशा | कंधमाल | कोटागढ | कोटागढ |
| 41. | ओडिशा | बालेश्वर | रायबनिया | रबानिया |
| 42. | पुडुचेरी | पांडिचेरी | बाहोर | किरूमामपाक्कम |
| 43. | पुडुचेरी | कराईकल | थिरुनाल्लार | अंबागराथूर, कारूक्कानकुडी, नाल्लाम्बल, पेट्टाई सेलर, सेलूर, सुराकुडी, थिरुनाल्लार (उत्तर), थिरुनाल्लार (दक्षिण) |
| 44. | पंजाब | लुधियाना | धान्द्रा | धांदरा |
| 45. | पंजाब | फतेहगढ साहिब | संघोल | अजनेर, अमराला, बाथन कलान, बाथन खुर्द, भांबरी, भामीना, भरी, भाटियन, बिलासपुर, बुर्ज, धिनाऊ माजरा, घोलेवाल , दुलवान, गग्रवाल, हरगाना, हरगाना, हवारा, काला माजरा, कालेवाल, कालेवाल ई, कांत , खेरी नोद सिंह कोटला अजनेर , लोहार माजरा खुर्द , महेशपुर, नंगला एन, रायपुर, संघोल |
| 46. | राजस्थान | बांसवाड़ा | अबापुरा | अबापुरा, बदरेल खुर्द, बोरिया, वीरपुर |
| 47. | राजस्थान | बांसवाड़ा | भगोरा | भगोरा , खेडा सकारिया |
| 48. | राजस्थान | उदयपुर | गोगुंडा | गोगुंडा |
| 49. | राजस्थान | प्रतापगढ | पीली खेरा | पीली खेरा |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------------|------------------|---|
| 50. | सिक्किम | दक्षिण जिला | नामथांग | कार्टेग पामफोक, नमथांग मानेदरा , तुरंग माम्निंग |
| 51. | सिक्किम | पश्चिम जिला | सोरंग | भूदांग , कार्तोक बोजेक , मालबसे , मंगसरी मंगर जंग , सिंगलिंग, सोरेंग , थारपु , टिंबर्बोंग |
| 52. | तमिलनाडु | कांचीपुरम | सिंगापेरुमल कोइल | सिंगापेरुमल कोइल |
| 53. | तेलंगाना | करीमनगर | बिरीगिरीशरीफ | बिरीगिरीशरीफ, धर्मावरम , एलाथाकुंटा |
| 54. | तेलंगाना | यदाद्री भुवन गिरि | चौटुप्पल | अल्लापुर, डी नगरम, मल्कापुर |
| 55. | तेलंगाना | निर्मल | कुंतला | चाकिपल्ले , कल्लूर |
| 56. | तेलंगाना | पेद्दापल्ली | सुल्तानाबाद | इथरजपल्ली , कोडुरुपका |
| 57. | तेलंगाना | निजामाबाद | येदापल्ली | जनकम्पेट , कुर्नापल्ली , थानाकलां |
| 58. | त्रिपुरा | उत्तर त्रिपुरा | बेलियनचिप | वांगमुन |
| 59. | त्रिपुरा | उत्तर त्रिपुरा | रौवा | चंद्र हालम पैरा जीपी , रोवा |
| 60. | उत्तर प्रदेश | कुशी नगर | बांसगांव | बांसगांव |
| 61. | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | कोडाई | बैजनाथ, चेरू, कोडाई , मरकुरी, पलहारी |
| 62. | उत्तर प्रदेश | चित्रकूट | मिडाकुर | अहिरी, बाम्बुरी, बरबार मुस्तकिल, भिटारी, छिलोहा, हतावा, मैन कुंवर कौंडो , मंदौर, मऊ मुस्तकिल, मवई कालान मुस्तकिल, सखौन्हा, सेसा, सुबकरा मुस्तकिल, सुरौंधा, ताडी मुस्तकिल, तिलावही कौंडो |
| 63. | उत्तर प्रदेश | आगरा | मिडाकुर | बरारा |
| 64. | उत्तर प्रदेश | महोबा | श्री नगर | अतरार माफ़ , नानौरा , श्री नगर, उरवारा |
| 65. | उत्तराखंड | टिहरी गढ़वाल | धनौलटी | डबाली, दंडकीवेली, धनौलटी, डूंडा, दंडकोबेली, धनौलटी, डूंडा, फिडौंगी, वहशी, कालाबन-तैंगना, खनेरी, नौघर, उनियालगान |
| 66. | उत्तराखंड | बागेश्वर | कौसानी | कौसानी , लोबंज , रत्नमती |
| 67. | उत्तराखंड | उमेद सिंह नागर | पहेनिया | थुदाकिशानी |
